



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 552]

नई दिल्ली, बुधस्वतिवार, नवम्बर 16, 2006/कार्तिक 25, 1928

No. 552]

NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 16, 2006/KARTIKA 25, 1928

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 नवम्बर, 2006

सा.का.नि. 704(अ).—केन्द्रीय सरकार, भाण्डागारण निगम अधिनियम, 1962 (1962 का 58) की धारा 41 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय भाण्डागारण निगम नियम, 1963 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

- (i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय भाण्डागारण निगम (संशोधन) नियम, 2006 है।
(ii) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- केन्द्रीय भाण्डागारण निगम नियम, 1963 के नियम 4 में, उप-नियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा,

अर्थात्:—

“(3) धारा 7 की उप-धारा (1) के खंड (घ), खंड (ङ) या खंड (च) के अधीन निर्वाचित निदेशक, अपने निर्वाचन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए या जब तक उसके स्थान पर कोई उत्तरवर्ती निर्वाचित नहीं हो जाता है, इनमें से जो भी बाद में हो, अपना पद धारण करेगा।”

[फा. सं. 6-2/2004-एस.जी.]

एस. के. श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम सं. सा.का.नि. 635 तारीख 13-4-1963 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधित किए गए—

- | | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| 1. सा.का.नि. 295 तारीख 27-2-1964 | 12. सा.का.नि. 811(अ) तारीख 22-9-1976 |
| 2. सा.का.नि. 1266 तारीख 31-8-1964 | 13. सा.का.नि. 1399 तारीख 9-11-1978 |
| 3. सा.का.नि. 1481 तारीख 29-9-1964 | 14. सा.का.नि. 58 तारीख 28-12-1979 |
| 4. सा.का.नि. 649 तारीख 15-4-1965 | 15. सा.का.नि. 289(अ) तारीख 10-4-1981 |
| 5. सा.का.नि. 56 तारीख 2-1-1967 | 16. सा.का.नि. 663(अ) तारीख 5-11-1982 |
| 6. सा.का.नि. 612 तारीख 18-3-1968 | 17. सा.का.नि. 19(अ) तारीख 19-1-1986 |
| 7. सा.का.नि. 1252 तारीख 17-8-1970 | 18. सा.का.नि. 498(अ) तारीख 14-5-1987 |
| 8. सा.का.नि. 1297 तारीख 15-7-1970 | 19. सा.का.नि. 868(अ) तारीख 23-10-1987 |
| 9. सा.का.नि. 1371 तारीख 7-12-1973 | 20. सा.का.नि. 435(अ) तारीख 5-4-1990 |
| 10. सा.का.नि. 683 तारीख 21-5-1975 | 21. सा.का.नि. 644(अ) तारीख 20-9-1990 |
| 11. सा.का.नि. 143 तारीख 12-1-1976 | 22. सा.का.नि. 295(अ) तारीख 22-4-2002 |

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Food and Public Distribution)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th November, 2006

G.S.R. 704(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 41 of the Warehousing Corporation Act, 1962 (58 of 1962), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Warehousing Corporation Rules, 1963, namely :—

1. (i) These rules may be called the Central Warehousing Corporation (Amendment) Rules, 2006.
- (ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In rule 4 of the Central Warehousing Corporation Rules, 1963, for Sub-rule (3) the following sub-rule shall be substituted, namely :—

“(3) A director elected under clause (d), clause (e) or clause (f) of Sub-section (1) of Section 7, shall hold office for a period of three years from the date of his election or until a successor is elected in his place, whichever is later.”

[F. No. 6-2/2004-SG]

S. K. SRIVASTAVA, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published *vide* No. G.S.R. 635 dated 13-4-1963 and subsequently amended by the following G.S.R. numbers :—

- | | |
|--------------------------------|------------------------------------|
| 1. G.S.R. 295 dated 27-2-1964 | 12. G.S.R. 811(E) dated 22-9-1976 |
| 2. G.S.R. 1266 dated 31-8-1964 | 13. G.S.R. 1399 dated 9-11-1978 |
| 3. G.S.R. 1481 dated 29-9-1964 | 14. G.S.R. 58 dated 28-12-1979 |
| 4. G.S.R. 649 dated 15-4-1965 | 15. G.S.R. 289(E) dated 10-4-1981 |
| 5. G.S.R. 56 dated 2-1-1967 | 16. G.S.R. 663(E) dated 5-11-1982 |
| 6. G.S.R. 612 dated 18-3-1968 | 17. G.S.R. 19(E) dated 19-1-1986 |
| 7. G.S.R. 1252 dated 17-8-1970 | 18. G.S.R. 498(E) dated 14-5-1987 |
| 8. G.S.R. 1297 dated 15-7-1970 | 19. G.S.R. 868(E) dated 23-10-1987 |
| 9. G.S.R. 1371 dated 7-12-1973 | 20. G.S.R. 435(E) dated 5-4-1990 |
| 10. G.S.R. 683 dated 21-5-1975 | 21. G.S.R. 644(E) dated 20-9-1990 |
| 11. G.S.R. 143 dated 12-1-1976 | 22. G.S.R. 295(E) dated 22-4-2002 |